



Haryana Biggest Talent Search Exam

RAAH GROUP®

Head Office : 28-A, 11th Floor, Gali No. 11, Pratap Nagar, Mayur Vihar-1, Delhi-91

पूर्णांक : 100

Total Marks : 100

सब जूनियर वर्ग / Sub Junior Group

समय : 1 घण्टा

Time : 1 Hrs.

कक्षा : 7-8

Class : 7-8

प्रश्न-पत्र कोड : D

Booklet Code : D

Candidate Name.....Date of Birth..... Exam. Date.....

Father Name

School Name

Class.....Class Roll No.Distt.

Exam. Centre.....

निर्देश / INSTRUCTIONS

नोट : निर्देशों का अनुपालन अत्यन्त आवश्यक है।

1. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
2. उत्तर पुस्तिका (OMR Sheet) में कटिंग वर्जित है।
3. अपने उत्तर अंकित करने के लिए केवल नीली या काली स्याही वाले बॉल पॉइन्ट पेन का ही प्रयोग करें। अन्य सभी रंग प्रतिबन्धित हैं। पेन्सिल का प्रयोग नहीं करें।
4. गलत जवाब होने पर नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक कम किये जाएंगे।
5. बहुविकल्पीय प्रश्नों में दिए गए चार विकल्पों में से सबसे सही उत्तर चुन कर, उत्तर पत्र में उसी प्रश्न के सम्मुख बने गोलों में उचित स्थान पर अंकित करें।
6. इस उत्तर पत्र में उचित स्थान के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर न लिखें, अन्यथा उत्तर पत्र अमान्य कर दिया जाएगा।
7. प्रतिरूपण/ अनुचित तरीका अपनाने वाले विद्यार्थियों को आजीवन के लिए बहिष्कृत कर दिया जाएगा।
8. परीक्षा कक्ष छोड़ने से पहले यह OMR Sheet/उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को अवश्य लौटा दें।

Note : Strict compliance of Instructions is essential.

1. All Questions are Compulsory.
2. Overwriting in Answer sheet is not allowed
3. Please use only BLUE OR BLACK BALL POINT PEN to mark your answers. Pens with any other colours are Prohibited. Do not use Pencil.
4. There will be negative marking of 0.25 for each wrong Answer.
5. While Answering, choose the best alternative from Objective Type (M.C.Q.) the four choices given below the question and mark the same in corresponding circle in your Answer Sheet.
6. Please do not write or mark on this Question Paper outside the demarcated areas. It may invalidate your answer sheet.
7. Impersonation cases/ malpractice will be debarred for life.
8. Please hand over the Answer Sheet (OMR Sheet) Invigilator/ Examiner before leaving the examination hall.

नोट : इस पुस्तिका की सील तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।

Auth. Sign.

Sign. of Examiner

HARYANA BIGGEST TALENT SEARCH EXAM



1st Prize ₹11000x3



2nd Prize ₹5100x3

3rd Prize ₹3100x3

4th Prize ₹2100x3

5th Prize ₹1100x3

- 5th-6th Sub Junior • 9th-10th Junior
- 7th-8th Sub Junior • 11th-12th Senior*

100/Mcq.
1Hrs.

2000
Prizes

Registration Fees ₹ 130 PER STUDENT

ABOUT EXAMINATION

GO THROUGH YOUR BOOKS
AND GET ATTRACTIVE PRIZE

Exam Based on School Text Books

Question Paper Pattern 5th to 10th

HINDI-15

ENGLISH-15

COMPUTER KNOWLEDGE-05

MATH-15

SCIENCE-15

GENERAL KNOWLEDGE-35*

Question Paper Pattern +1/+2

Hindi-25, English-25, Computer-05,

Mental Ability-10, General Awareness-35*

*(History & Civics, Political Science, Indian Constitution, Economics, Commerce, Social Science, Traffic Rules, Mental Ability, Current Affairs, Sports, Awareness on Haryana/India)

PRESENTED BY : **RAAH GROUP**[®]

Website : www.raahgroupindia.com

Email:- raahgroup@gmail.com, hindustannewsagency@gmail.com

www.facebook.com/raahgroupindia


Head Office : 28-A, IIIrd Floor, Gali No. 11, Pratap Nagar, Mayur Vihar-1, Delhi-91





Haryana Office : Selpar Sadan, Talwandi Rana, Hisar (Haryana)

Helpline No: 9896999911, 9416485219

GENERAL KNOWLEDGE


1. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरियाणा में किस दिन से 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत की है?
(A) 20 जनवरी, 2015 (B) 21 जनवरी, 2015
(C) 22 जनवरी, 2015 (D) 23 जनवरी, 2015
2. अठारहवीं शताब्दी में किस नए शहर का उदय हुआ?
(A) बम्बई (B) कलकत्ता
(C) मद्रास (D) उपरोक्त सभी
3. 'रामचरितमानस' के रचनाकार कौन थे?
(A) नामदेव (B) कबीर
(C) तुलसीदास (D) सूरदास
4. 'विटामिन सी' का सबसे उत्तम स्रोत है?
(A) सेब (B) आम
(C) ऑवला (D) दूध
5. पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई?
(A) 1526 में (B) 1556 में
(C) 1761 में (D) 1857 में
6. ट्रैफिक नियमानुसार 'गति अवरोध' दर्शाने के लिए कौन सा संकेत उपयोग होगा -







7. ट्रैफिक नियमानुसार चौराहे के लिए संकेत उपयोग होगा -
(A)  (B) 
(C)  (D) 

8. उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को क्या कहते हैं?
(A) प्रेअरी (B) वेल्ड
(C) स्टेपी (D) पैंपास
9. हमारे देश में कौन-सा संचार माध्यम सबसे पहले प्रचलित हुआ -
(A) रेडियो (B) टेलिविजन
(C) इंटरनेट (D) इनमें से कोई नहीं
10. लद्दाख किस महाद्वीप में स्थित है -
(A) अफ्रीका (B) एशिया
(C) उत्तरी अमेरिका (D) दक्षिणी अमेरिका





1. When Prime Minister Narendra Modi has started Beti Bachao-Beti Padho Abhiyan?
(A) 20 January, 2015 (B) 21 January, 2015
(C) 22 January, 2015 (D) 23 January, 2015
2. Which new City came in existence in 18th century?
(A) Bombay (B) Calcutta
(C) Madras (D) All the Above
3. Who created 'Ram Charitra Manas' ?
(A) Namdev (B) Kabir
(C) Tulsidas (D) Surdas
4. Best Source of Vitamic C is -
(A) Apple (B) Mango
(C) Amla (D) Milk
5. 3rd Battle of Panipat was fought in -
(A) 1526 (B) 1556
(C) 1761 (D) 1857
6. According to traffic rules which sign is used for 'speed breaker' ?







7. Sign is used for sign of square ?
(A)  (B) 
(C)  (D) 


8. Grass Lands of North America are called ?
(A) Priary (B) Weild
(C) Stapi (D) Pampas
9. Which means of communication became most prevalent in our country?
(A) Radio (B) Television
(C) Internet (D) None of these
10. In which continent Laddakh is situated ?
(A) Africa (B) Asia
(C) North America (D) South America

11. जोहांसबर्ग किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
 (A) सोना (B) हीरा
 (C) कोयला (D) लोहा
12. दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने अधिक सीटें जीती हैं?
 (A) भाजपा (B) आप
 (C) कांग्रेस (D) इनेलो
13. जयपुर शहर किसने बसाया था?
 (A) सवाई राजा जयसिंह (B) राजा अजित सिंह
 (C) राजा मानसिंह (D) राजा टोडरमल
14. वर्तमान में हरियाण के वित्तमंत्री कौन हैं?
 (A) एम. एल. खट्टर (B) कैप्टन अभिमन्यु
 (C) रामबिलास शर्मा (D) अनिल विज
15. 'गंगटोक' का सम्बन्ध किस राज्य से है?
 (A) हिमाचल प्रदेश (B) सिक्किम
 (C) झारखंड (D) पं० बंगाल
16. कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश है -
 (A) भारत (B) जापान
 (C) चीन (D) रूस
17. 'स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी' कहाँ स्थित है?
 (A) न्यूयार्क (B) पेरिस
 (C) मास्को (D) आगरा
18. अर्जुन के पुत्र का क्या नाम था?
 (A) परिक्षित (B) घटोत्कच
 (C) अभिमन्यु (D) उपरोक्त सभी
19. महात्मा गाँधी की हत्या कब हुई?
 (A) 30 फरवरी 1948 (B) 30 जनवरी 1948
 (C) 02 अक्टूबर 1869 (D) 15 अगस्त 1947
20. निम्न में से किस वर्ग के लिए एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क है?
 (A) 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए
 (B) सड़क हादसों में घायलों के लिए
 (C) प्रसव सम्बन्धित मामलों में (D) उपरोक्त सभी
21. फ्री-स्टाइल शब्द का सम्बन्ध किससे है?
 (A) गोला फेंक (B) तैराकी
 (C) कुश्ती (D) पोलो
11. For which mineral Johansberg is famous ?
 (A) Gold (B) Diamond
 (C) Coal (D) Iron
12. Which party won maximum numbers of seats in Delhi legislative assembly election?
 (A) BJP (B) AAP
 (C) Congress (D) INLD
13. Who settled Jaipur city ?
 (A) Sawai Raja Jai Singh (B) Raja Ajit Singh
 (C) Raja Maan Singh (D) Raja Todermal
14. Who is finance minister of haryana at present ?
 (A) M. L. Khatter (B) Capt. Abhimanyu
 (C) Rambilas Sharma (D) Anil Vij
15. To Which State Gangtok is associated ?
 (A) Himachal Pradesh (B) Sikkim
 (C) Jharkhand (D) West Bengal
16. First country which introduced paper currency
 (A) India (B) Japan
 (C) China (D) Russia
17. Where 'Statue of Liberty' is situated ?
 (A) New York (B) Paris
 (C) Mascow (D) Agra
18. What was name of Arjuna's son ?
 (A) Parikshit (B) Ghatotkach
 (C) Abhimanyu (D) All the above
19. When was Mahatma Gandhi assasinated ?
 (A) 30 February 1948 (B) 30 January 1948
 (C) 02 October 1869 (D) 15 August 1947
20. For whom ambulance service is free of cost ?
 (A) People above 70 year age.
 (B) Victims of Road Accidents.
 (C) For expected mothers.
 (D) All the above.
21. 'Free Style' word is associated with ?
 (A) Hammer Throw (B) Swimming
 (C) Wrestling (D) Polo

22. गुरुमुखी लिपि के अविष्कारक कौन थे ?
 (A) गुरुनानक देव (B) अंगद
 (C) गुरुगोबिन्द सिंह (D) अमरदास
23. भारत में जनगणना कितने वर्ष के अन्तराल पर की जाती है ?
 (A) 8 वर्ष (B) 5 वर्ष
 (C) 10 वर्ष (D) 15 वर्ष
24. निम्न में से कौन खेल के आधार पर दूसरों से अलग है ?
 (A)  (B) 
 (C)  (D) 
25. निम्न में से कौन-सी ईमारत राजस्थान में नहीं है ?



22. Who was the inventor of Gurumukhi Lipi ?
 (A) Guru Nanak Dev (B) Aangad
 (C) Guru Gobind Singh (D) Amar Dass
23. Census of India is done after an interval of ?
 (A) 8 Years (B) 5 Years
 (C) 10 Years (D) 15 Years
24. Who is different from others on behalf of games?
 (A)  (B) 
 (C)  (D) 
25. Which building is not situated in Rajasthan?



हिन्दी

26. व्याकरण की दृष्टि से 'बुढ़ापा' क्या है ?
 (A) विशेषण (B) क्रिया विशेषण
 (C) जातिवाचक संज्ञा (D) भाववाचक संज्ञा
27. 'आँधी के आम' मुहावरे का अर्थ है -
 (A) सस्ती वस्तु (B) बिना परिश्रम के प्राप्त वस्तु
 (C) खराब वस्तु (D) मुफ्त मिली वस्तु
28. 'विद्वान' शब्द का स्त्रीलिंग होगा -
 (A) विद्वानी (B) कवियत्री
 (C) विद्वशी (D) विदुषी
29. 'शायद आभा आती होगी' में क्रियार्थ का कौन-सा भेद है ?
 (A) निश्चयार्थक (B) संभावनार्थक
 (C) संदेहार्थक (D) संकेतार्थक
30. व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं ?
 (A) 1 (B) 2
 (C) 3 (D) 4
31. 'नीलकण्ठ' शब्द किस वर्ग का है ?
 (A) यौगिक (B) रूढ़ि
 (C) योग रूढ़ि (D) इनमें से कोई नहीं
32. हिन्दी व्याकरण में कितने व्यंजन होते हैं ?
 (A) 11 (B) 13
 (C) 33 (D) 44
33. जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं ?
 (A) मूल शब्द (B) तत्सम् शब्द
 (C) अव्यय (D) धातु

34. 'आकाश में घुमने वाला' वाक्यांश के लिए एक शब्द है-
 (A) आकाशीय (B) नभचर (C) अन्तरिक्ष (D) पक्षीगण
35. मुख्यतः अलंकार के कितने भेद होते हैं?
 (A) दो (B) तीन (C) चार (D) पांच
36. प्राचीन काल में तपोवन स्वर्ग माने जाते थे, में रेखांकित शब्द में कौन-सी सन्धि है?
 (A) विसर्ग सन्धि (B) स्वर सन्धि (C) व्यंजन सन्धि (D) गुण सन्धि
37. 'सेनापति' शब्द में कौन-सा समास है?
 (A) कर्मधारय समास (B) बहुब्रीहि समास (C) तत्पुरुष समास (D) द्विगु समास
38. 'उन्नति' शब्द का पर्यायवाची शब्द है-
 (A) प्रगति (B) उत्थान (C) वृद्धि (D) समृद्धि
39. नीचे लिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए?
 (A) आव्रत्ति (B) आवृत्ति (C) आवृती (D) आवृत्ति
40. अपने कर्तव्य का पालन करें। में सही शब्द का चयन करें?
 (A) भक्तिपूर्वक (B) निष्ठापूर्वक (C) परिश्रमपूर्वक (D) शान्तिपूर्वक

ENGLISH

- ❖ Re-arrange each set of words to make sentences.
41. 1.wise 2.every 3.a 4.is 5.proverb 6.saying
 (A) 216435 (B) 256431 (C) 214635 (D) 215436
42. 1.see 2.you 3.can 4.from 5.me 6.there
 (A) 231546 (B) 315246 (C) 621543 (D) 521346
43. 1.an 2.it 3.was 4.trip 5.interesting
 (A) 23154 (B) 23541 (C) 31245 (D) 32154
- ❖ Fill in the blanks with correct form of Non-Finites.
44. We were not permitted the hospital.
 (A) enter (B) to enter (C) entering (D) none
45. You had better this business soon.
 (A) start (B) to start (C) starting (D) started
46. I hope the exam this time.
 (A) passing (B) to pass (C) Passed (D) none
- ❖ Fill in the blanks with appropriate modals.
47. I like to stay here for today.
 (A) shall (B) will (C) Need (D) Would
48. You take light exercise for some days.
 (A) should (B) would (C) will (D) Can
49. you go to the town, convey my message to him.
 (A) should (B) can (C) will (D) Would
- ❖ In each of the following questions, choose the correctly spelt word.
50. (A) Responsibility (B) Responsblity (C) Ressponsibility (D) Responsibiliy
51. (A) manufacturred (B) manufactured (C) manufactured (D) manufactured
- ❖ Fill in the blanks with suitable Articles.
52. Kalidas is Shakespeare of India.
 (A) A (B) An (C) The (D) None
53. doctor is respected in society.
 (A) A (B) The (C) An (D) None
- ❖ Change the Narration in the following sentences:
54. Ram said, "Mohan has gone to Delhi."
 (A) Ram said Mohan had gone to Delhi.
 (B) Ram said that Mohan had gone to Delhi.
 (C) Ram told that Mohan had gone to Delhi.
 (D) Ram told Mohan had gone to Delhi.
55. He said to me, " you have gone mad".
 (A) He told me that I had gone mad.
 (B) He said me that you have gone mad.
 (C) He told to me you have gone mad.
 (D) He said that me you have gone mad.

SCIENCE

56. रबी की फसल है -
 (A) चना (B) बाजरा
 (C) कपास (D) मूंग
57. मजबूत हड्डियों तथा दाँतों के लिए की आवश्यकता होती है?
 (A) विटामिन ए (B) विटामिन सी
 (C) विटामिन डी (D) इनमें से कोई नहीं
58. हमारे शरीर के किस भाग में अस्थि संधि होती है?
 (A) कोहनी में (B) गर्दन में
 (C) दोनों में (D) इनमें से कोई नहीं
59. मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है?
 (A) 0 डिग्री सेल्सियस (B) 25 डिग्री सेल्सियस
 (C) 37 डिग्री सेल्सियस (D) 42 डिग्री सेल्सियस
60. ऋतु के आधार पर फसलें कितनी प्रकार की होती है?
 (A) 4 (B) 3
 (C) 2 (D) 1
61. सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है?
 (A) सोयाबीन में (B) मूंगफली में
 (C) मटर में (D) चावल में
62. किशोर किस आयु में अधिकतम लम्बाई प्राप्त कर सकता है?
 (A) 16 वर्ष (B) 18 वर्ष
 (C) 20 वर्ष (D) 23 वर्ष
63. गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है -
 (A) चन्द्रमा में (B) पृथ्वी में
 (C) बुध में (D) उपरोक्त सभी में
64. बल किसी वस्तु की ला सकता है -
 (A) विराम अवस्था की गति में परिवर्तन (B) दिशा में परिवर्तन
 (C) चाल में परिवर्तन (D) उपरोक्त सभी
65. माचिस का बल बनाया जाता है?
 (A) सुंदर दिखने के लिए (B) मजबूत बनाने के लिए
 (C) घर्षण बढ़ाने के लिए (D) घर्षण कम करने के लिए
66. मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न होती है?
 (A) मुँह से (B) जीभ से
 (C) कंठ से (D) नाक से
56. Rabi Crop is.
 (A) Gram (B) Barley
 (C) Cotton (D) Moonge
57. For Strong bone and teeth which of the following is required?
 (A) Vitamin A (B) Vitamin C
 (C) Vitamin D (D) None
58. In which part of body bone-joint is present?
 (A) In Elbow (B) In Neck
 (C) Both A and B (D) None
59. Normal temperature of human body is -
 (A) 0° C (B) 25° C
 (C) 37° C (D) 42° C
60. Kinds of crops according to seasons -
 (A) 4 (B) 3
 (C) 2 (D) 1
61. What is most rich in protein?
 (A) Soyabean (B) Groundnut
 (C) Pea (D) Rice
62. In which age adolescents get maximum height?
 (A) 16 Years (B) 18 Years
 (C) 20 Years (D) 23 Years
63. Gravitational force is found on?
 (A) Moon (B) Earth
 (C) Mercury (D) All the above
64. Force can bring change in object's -
 (A) From state of rest to motion
 (B) Change in motion
 (C) Change in direction
 (D) All the above
65. Force of match box is made for?
 (A) Looking beautiful (B) making strong
 (C) Increasing friction (D) Decreasing friction
66. Sound is produced by man through?
 (A) Mouth (B) Tongue
 (C) Throat (D) Nose

67. विद्युत की अच्छा चाल होती है -
 (A) गीले हाथों में (B) गीली लकड़ी
 (C) ताँबे की तारों में (D) उपरोक्त सभी
68. पृथ्वी के केन्द्रिय भाग को क्या कहते हैं?
 (A) आंतरिक क्रोड (B) बाह्य क्रोड
 (C) प्रावार (D) भू-प्रोपर्टी
69. कौन सा भाग हमारे नेत्र का भाग नहीं है ?
 (A) दर्पण (B) लेंस
 (C) परितारिका (D) कार्निया
70. पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूर्णन करती है?
 (A) पश्चिम से पूर्व (B) पूर्व से पश्चिम
 (C) उत्तर से दक्षिण (D) दक्षिण से उत्तर

67. is good conductor of electricity?
 (A) Wet hands (B) Wet wood
 (C) Copper wire (D) All the above
68. Name of centre of earth is?
 (A) Interior Crode (B) Exterior Crode
 (C) Pravar (D) Surface
69. Which is not part of our eye?
 (A) Mirror (B) Lens
 (C) Irish (D) Cornea
70. In which direction earth moves on its axis?
 (A) West to East (B) East to West
 (C) North to South (D) South to North

COMPUTER

71. कम्प्यूटर की तीसरी पीढ़ी है -
 (A) 1958-1975 (B) 1966-1978
 (C) 1956-1971 (D) 1955-1971
72. प्रिंटर कौन-सा डिवाइस है?
 (A) आउटपुट डिवाइस (B) इनपुट डिवाइस
 (C) उपरोक्त दोनों (D) इनमें से कोई नहीं
73. एक गीगा बाइट (GB) में होते हैं -
 (A) 1024 GB (B) 1024 TB
 (C) 1024 KB (D) 1024 MB
74. माइक्रोसाफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन क्या है?
 (A) * Doc. (B) * PPF.
 (C) * NLS. (D) * R + F.
75. कौन-सी भाग हार्डवेयर का नहीं है?
 (A) MP# फाइल (B) माउस
 (C) की-बोर्ड (D) मॉनीटर

71. Third generation of computer is -
 (A) 1958-1975 (B) 1966-1978
 (C) 1956-1971 (D) 1955-1971
72. Printer is device of -
 (A) Output Device (B) Input Device
 (C) Both A and B (D) None
73. A Giga byte contains -
 (A) 1024 GB (B) 1024 TB
 (C) 1024 KB (D) 1024 MB
74. What is the extension of microsoft of MS Word?
 (A) * Doc. (B) * PPF.
 (C) * NLS. (D) * R + F.
75. Which is not part of hardware?
 (A) MP# File (B) Mouse
 (C) Keyboard (D) Moniter

Mental Ability

- ❖ नीचे दिये गये विकल्पों में से जो सम्बन्ध पहले का दूसरे से है वहीं सम्बन्ध तीसरे का चौथे विकल्प (?) से है। सही विकल्प चुनें :

76. चिल्का झील : उड़ीसा :: साम्भर झील : ?
 (A) राजस्थान (B) जम्मू कश्मीर
 (C) दिल्ली (D) भारत

- ❖ Below given options are related to one another in some way. First is related to second, same the third is to fourth, Mark the correct option.

76. Chilka Lake : Orrisa :: Sambhar Lake : ?
 (A) Rajasthan (B) Jammu & Kashmir
 (C) Delhi (D) India








77. बल : न्यूटन :: वर्षा : ?
 (A) बाढ़ (B) मानसून
 (C) सेन्टीमीटर (D) किलोमीटर

78. धुआं : प्रदूषण :: युद्ध : ?
 (A) समझौता (B) विनाश
 (C) शान्ति (D) विजय

❖ निर्देश : निम्न चार में से तीन किसी न किसी प्रकार से अपने समूह का निर्माण करते हैं, आप बताएं इन चार में से कौन-सा भिन्न है?

- 79 (A) बैंगन (B) केला
 (C) सेब (D) संतरा
- 80 (A) कार (B) बस
 (C) परिवहन (D) रेलगाड़ी

निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में तीन प्रश्न आकृतियां तथा चार उत्तर आकृतियां दी गई है। चारों प्रश्न आकृतियां एक निश्चित श्रृंखला बनाती है। उत्तर आकृतियों में से ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो इस श्रृंखला को जारी रखती हो।











77. Force : Newton :: Rain : ?
 (A) Flood (B) Monsoon
 (C) Centimeter (D) Kilometer

78. Smoke : Pollution :: War : ?
 (A) Agreement (B) Destruction
 (C) Peace (D) Victory

❖ Three of below given are associated to a group. which is different

79. (A) Brinjal (B) Banana
 (C) Apple (D) Orange
80. (A) Car (B) Bus
 (C) Transport (D) Train

❖ In each question four question figures and four answer figures are given. All question figures make a series. Choose the correct option from answer figures.



MATHS

86. एक किसी काम को 15 दिनों में और बी 20 दिनों में उसी काम को करता है यदि दोनों उसी काम को चार दिन लगके करें और छोड़ दे तो कितना काम शेष बचता है?
 (A) $1/4$ (B) $1/10$
 (C) $7/15$ (D) $8/15$
87. रोमन संख्या में 30 को लिखा जाता है -
 (A) M (B) C
 (C) L (D) XXX
88. 9 व 16 का L.C.M. होगा -
 (A) 144 (B) 150
 (C) 154 (D) 1
89. 24, 36 और 40 का सबसे छोटा सर्वगुणज है -
 (A) 120 (B) 240
 (C) 360 (D) 480
90. एक व्यक्ति 600 मी. लम्बी गली को 5 मिनट में पार कर लेता है, उसकी किलोमीटर प्रति घण्टा गति क्या होगी?
 (A) 3.6 (B) 7.2
 (C) 8.4 (D) 10
91. आयत के परिमाण का सूत्र है -
 (A) $2(2L + b)$ (B) $L + B$
 (C) $2L + B$ (D) $2L + 2B$
92. 31253 मि.ली. को लीटर में बदलें -
 (A) 3.1253 लि. (B) 31.253 ली.
 (C) 312.53 लि. (D) 3125.3 ली.
93. 5, 4, 3, 1 अंकों को मिलाकर चार अंकों की सबसे छोटी संख्या है?
 (A) 1345 (B) 1413
 (C) 1534 (D) 1545
94. एक मजदूर 30 दिनों में 165 रुपये कमाता है, तो 18 दिनों में कितने रुपये कमायेगा?
 (A) 99 (B) 100
 (C) 101 (D) 102
95. दो संख्याओं का योग 11009 है। यदि एक संख्या 9999 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी?
 (A) 2110 (B) 1010
 (C) 21008 (D) 1110
86. A can do a work in 15 days and B in 20 days. If they work on it together for 4 days, then the remain part of the work left is :-
 (A) $1/4$ (B) $1/10$
 (C) $7/15$ (D) $8/15$
87. How 30 can be writtne in Roman Language?
 (A) M (B) C
 (C) L (D) XXX
88. What is L.C.M. of 9 and 16 ?
 (A) 144 (B) 150
 (C) 154 (D) 1
89. Find the lowest common multiple of 24, 36 and 40 ?
 (A) 120 (B) 240
 (C) 360 (D) 480
90. A person crosses 600 m long street in 5 minutes. What is his speed in km per hour ?
 (A) 3.6 (B) 7.2
 (C) 8.4 (D) 10
91. The formula for perimeter of rectangle is -
 (A) $2(2L + B)$ (B) $L + B$
 (C) $2L + B$ (D) $2L + 2B$
92. Convert 31253 ml into litre -
 (A) 3.1253L (B) 31.253L
 (C) 312.53L (D) 3125.3L
93. Smallest Number made from 5,4,3,1 is.
 (A) 1345 (B) 1413
 (C) 1534 (D) 1545
94. A Labourer earns Rs. 165 in 30 days. How much will he earn in 18 days?
 (A) 99 (B) 100
 (C) 101 (D) 102
95. Sum of two number's is 11009. If one number is 9999, what will be the second number?
 (A) 2110 (B) 1010
 (C) 21008 (D) 1110

96. 1 मिलियन = लाख ?

- (A) 10 (B) 100
(C) 1000 (D) 1

97. अंक 94 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी ?

- (A) 92 (B) 93
(C) 95 (D) 96

98. कौन-सी संख्या त्रिभुजाकार है ?

- (A) 5 (B) 11
(C) 4 (D) 7

99. कौन-सी संख्या वर्ग के रूप में लिखी जा सकती है ?

- (A) 3 (B) 5
(C) 7 (D) 9

100. 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ?

- (A) 15 (B) 14
(C) 25 (D) 24

96. One Million = lacs.

- (A) 10 (B) 100
(C) 1000 (D) 1

97. Predecessor of number 94 is?

- (A) 92 (B) 93
(C) 95 (D) 96

98. Which number is figured as triangular?

- (A) 5 (B) 11
(C) 4 (D) 7

99. Which number is written as square?

- (A) 3 (B) 5
(C) 7 (D) 9

100. How many prime numbers are there between 1 to 50?

- (A) 15 (B) 14
(C) 25 (D) 24

ROUGH WORK / रफ कार्य



Haryana Biggest Talent Search Exam

MANNER IN WHICH ANSWERS ARE TO BE GIVEN / उत्तर देने की विधि

निर्देश : प्रत्येक प्रश्न अथवा प्रत्येक अधूरे कथन के बाद चार उत्तर अथवा पूरक कथन-सुझाए गए हैं। प्रत्येक दशा में आपको किसी एक को चुनना है जो प्रश्न का सही उत्तर दे अथवा कथन को पूरा करे और आपको उत्तर-पत्रिका में उपयुक्त अण्डाकार खाने A, B, C, या D को काले/नीले बॉल-पॉइंट पेन से काला/नीला () करना अनिवार्य है।

उदाहरण :

प्रश्न सं. '1' निम्न में से कौन-सी वस्तु लकड़ी से नहीं बनती है?

(A) मेज (B) बैट (C) बैल्ट (D) दरवाजा

स्पष्टीकरण : उपरोक्त उदाहरण में चार विकल्पों में से सही विकल्प बैल्ट है।

इसलिए प्रश्न सं. '1' का सही उत्तर 'C' विकल्प होगा। जिसे उत्तर पुस्तिका में दिये गए कॉलम 'C' के अण्डाकार खाने को काले/नीले बॉल पॉइंट पेन से काला/नीला करके उत्तर नीचे बताई गई विधि के अनुसार दिया जाना है।

उदाहरण :

प्रश्न सं. '1' निम्न में से कौन-सी वस्तु लकड़ी से नहीं बनती है?

(A) (B) (C) (D)

प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही सही उत्तर है। आपको समुचित कॉलम अर्थात् A, B, C या D के अण्डाकार खाने को काला/नीला () करना है। यदि आप किसी प्रश्न के सामने एक से अधिक अण्डाकार खाने को भरेंगे () तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। यदि आप किसी उत्तर को रद्द करना चाहते हैं तो आप उत्तर-पत्रिका के उस अण्डाकार खाने से काले/नीले निशान को पूरी तरह से मिटा दें और तब बदले हुए उत्तर के लिए अण्डाकार खाने को काला/नीला कर दें।

1. इस प्रश्न-पुस्तिका के अन्दर आपको उत्तर अंकित नहीं करने हैं। सभी उत्तर केवल OMR Sheet/ उत्तर पत्रिका में ही दें।
2. प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आप इस पुस्तिका की जाँच करके देख लें कि इसमें पूरे पृष्ठ हैं तथा कोई पृष्ठ कम या दोबारा तो नहीं आ गया है। यदि आप इस पुस्तिका में कोई त्रुटि पाएँ, तो तत्काल इसके बदले दूसरी पुस्तिका ले लें।
3. किसी भी रोजगार परक या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह ही एन.बी.टी. एस.ई./एच.बी.टी.एस.ई. परीक्षा में भी परीक्षा केन्द्रों में मोबाईल फोन तथा बेतार संचार साधन पूरी तरह निषिद्ध हैं। उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि मोबाईल फोन या किसी अन्य बेतार साधन को स्विच ऑफ करके भी अपने पास न रखें। इस प्रावधान का अनुपालन न करने पर परीक्षा में अनुचित उपायों का प्रयोग माना जाएगा और उनके विरुद्ध कारवाई की जाएगी, उनकी उपस्थिति रद्द कर देने सहित।"

Directions : Each question or incomplete statement is followed by four alternative suggested answers or compleions. In each case, you are required to select the one that correctly answers the questions or completes the statement and blacken [] appropriate oval A,B,C or D by **Black/Blue Ball-point pen** against the question concerned in the Answer-Sheet.

Example :

Question No. '1'- Which one is not formed by wood ?

(A) Table (B) Bat (C) Belt (D) Door

Explanation : In the above example, the correct answer is 'Belt' and this answer has been suggested at 'C'. Accordingly, the answer is to be indicated by blackening the oval by Black/Blue Ball-point Pen in column 'C' against Question No. (1) in the manner indicated below :

Question No. '1'- Which one is not formed by wood ?

(A) (B) (C) (D)

There is only one correct answer to each question. You should blacken () the oval of the appropriate column, viz., A, B, C or D. If you blacken () more than one oval against any one question, the answer will be reated as wrong. If you wish to cancel any answer, you should completely erase that black mark in the oval in the OMR-Sheet, and then blacken the oval of revised response.

1. You are NOT required to mark your answers in this Booklet. All answers must be indicated in the OMR-Sheet only.
2. Before you start to answer the questions you must check up this booklet and ensure that it contains all the pages and see that no page is missing or repeated. If you find any defect in this booklet, you must get it replaced immediately.
3. "Mobile phones and wireless communication devices are completely banned in the examination halls/rooms. Candidates are advised not to keep mobile phones/any other wireless communication devices to keep mobile phones/any other wireless communication devices which them even switching it off, in their own interest. Falling to comply with this provision will be considered as using unfair means in the examination and action will be taken against them including cancellation of their candidature."

DO NOT OPEN THE SEAL OF THE BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO.



R A A H 012345678112



Haryana Biggest Talent Search Exam

RAAH GROUP®

Head Office : 28-A, Illrd Floor, Gali No. 11, Pratap Nagar, Mayur Vihar-1, Delhi-91

पूर्णांक : 100

Total Marks : 100

सब जूनियर वर्ग/ Sub Junior Group

समय : 1 घण्टा

Time : 1 Hrs.

कक्षा : 7-8

Class : 7-8

प्रश्न-पत्र कोड : A

Booklet Code : A

Candidate Name.....Date of Birth..... Exam. Date.....

Father Name

School Name

Class.....Class Roll No.Distt.

Exam. Centre.....

निर्देश / INSTRUCTIONS

नोट : निर्देशों का अनुपालन अत्यन्त आवश्यक है।

1. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
2. उत्तर पुस्तिका (OMR Sheet) में कटिंग वर्जित है।
3. अपने उत्तर अंकित करने के लिए केवल नीली या काली स्याही वाले बॉल पॉइन्ट पेन का ही प्रयोग करें। अन्य सभी रंग प्रतिबन्धित हैं। पेन्सिल का प्रयोग नहीं करें।
4. गलत जवाब होने पर नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक कम किये जाएंगे।
5. बहुविकल्पीय प्रश्नों में दिए गए चार विकल्पों में से सबसे सही उत्तर चुन कर, उत्तर पत्र में उसी प्रश्न के सम्मुख बने गोलों में उचित स्थान पर अंकित करें।
6. इस उत्तर पत्र में उचित स्थान के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर न लिखें, अन्यथा उत्तर पत्र अमान्य कर दिया जाएगा।
7. प्रतिरूपण/ अनुचित तरीका अपनाने वाले विद्यार्थियों को आजीवन के लिए बहिष्कृत कर दिया जाएगा।
8. परीक्षा कक्ष छोड़ने से पहले यह OMR Sheet/उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को अवश्य लौटा दें।

Note : Strict compliance of Instructions is essential.

















1. All Questions are Compulsory.
2. Overwriting in Answer sheet in not allowed
3. Please use only BLUE OR BLACK BALL POINT PEN to mark your answers. Pens with any other colours are Prohibited. Do not use Pencil.
4. There will be negative marking of 0.25 for each wrong Answer.
5. While Answering, choose the best alternative from Objective Type (M.C.Q.) the four choices given below the question and mark the same in corresponding circle in your Answer Sheet.
6. Please do not write or mark on this Question Paper outside the demarcated areas. It may invalidate your answer sheet.
7. Impersonation cases/ malpractice will be debarred for life.
8. Please hand over the Answer Sheet (OMR Sheet) Invigilator/ Examiner before leaving the examination hall.

नोट : इस पुस्तिका की सील तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।

Auth. Sign.

Sign. of Examiner

GENERAL KNOWLEDGE

- भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश कौन सा है ?
(A) महाराष्ट्र (B) उत्तर प्रदेश
(C) गुजरात (D) तमिलनाडू
- शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है?
(A) 8 सितम्बर (B) 8 अक्टुबर
(C) 5 सितम्बर (D) 5 अक्टुबर
- सबसे बड़ा डेल्टा कौन-सा है ?
(A) सुन्दरवन (B) थार
(C) सहारा (D) ऐडीज
- भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं-
(A) जीतन राम मांझी (B) सुषमा स्वराज
(C) राजनाथ सिंह (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
- हाल ही में सेनाध्यक्ष बने जनरल दलबीर सुहाग का सम्बन्ध हरियाणा के किस जिले से है ?
(A) झज्जर से (B) रोहतक से
(C) सिरसा से (D) हिसार से
- 'गति अवरोधक' दर्शाने के लिए कौन सा संकेत प्रयोग होगा-
(A)  (B) 
(C)  (D) 
- ट्रैफिक नियमानुसार आने वाली मुख्य सड़क के लिए संकेत उपयोग होगा -
(A)  (B) 
(C)  (D) 
- सबसे पहला वेद कौन-सा है ?
(A) अथर्ववेद (B) ऋग्वेद
(C) सामवेद (D) यजुर्वेद
- त्रिमूर्ति से संबन्धित है।
(A) एलौरा (B) अजन्ता
(C) खजुराहो (D) एलफैंन्टा गुफाए
- कितने क्षेत्रों में नोबल पुरस्कार दिया जाता है ?
(A) 6 (B) 7
(C) 5 (D) 8
- Largest sugarcane producing State of India?
(A) Maharashtra (B) Uttar Pradesh
(C) Gujarat (D) Tamilnadu
- Teacher's Day is celebrated on-
(A) 8th September (B) 8th October
(C) 5th September (D) 5th October
- Largest Delta in the world is ?
(A) Sunderone (B) Thar
(C) Sahara (D) The Akees
- Who is the Present foreign minister of India?
(A) Jitan Ram Manjhi (B) Sushma Swaraj
(C) Rajnath Singh (D) None of these
- To which District of Haryana Army chief, Gernal Dalbir Suhag belongs to?
(A) Jhajjar (B) Rohtak
(C) Sirsa (D) Hisar
- Signal for speed breaker is.
(A)  (B) 
(C)  (D) 
- According to traffic rules Signal for MAJOR ROAD AHEAD is :-
(A)  (B) 
(C)  (D) 
- First veda is-
(A) Arth Veda (B) Rig Veda
(C) Sam Veda (D) Yajur Veda
- Trimurti is associated with-
(A) Ellora (B) Ajanta
(C) khajuraho (D) Elephanta caves
- Nobel prize is given in how many fields?
(A) 6 (B) 7
(C) 5 (D) 8

11. संयुक्त राष्ट्र संघ में मत डालने का अधिकार कितने देशों को है?
(A) 8 (B) 7
(C) 5 (D) 6
12. इंग्लैंड की मुद्रा कौन सी है?
(A) डॉलर (B) पौंड
(C) रूपया (D) यूरो
13. पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम स्तर पर महिलाओं हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है?
(A) 33% (B) 66%
(C) 75% (D) 50%
14. सन्त कबीर के गुरु कौन थे?
(A) रामानुज (B) रामानन्द
(C) नामदेव (D) बल्लभाचार्य
15. महाभारत का प्राचीन नाम क्या है?
(A) जय भारत (B) जयसहिता
(C) विजयभारत (D) इनमें से कोई नहीं
16. हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं?
(A) पं. नेकीराम शर्मा (B) चौ. देवीलाल
(C) भगवत दयाल शर्मा (D) चौ. बंसीलाल
17. भारत में ग्रांड ट्रंक (जी.टी.)रोड़ किसने बनवाई ?
(A) अशोक ने (B) अकबर ने
(C) औरंगजेब ने (D) शेरशाह सूरी ने
18. डेविस कप कौन से खेल से सम्बन्धित है?
(A) क्रिकेट (B) लॉन टेनिस
(C) हॉकी (D) फुटबॉल
19. कॉमनवेल्थ खेल 2014 में मुम्बई में भारत को कितने स्वर्ण पदक मिले-
(A) 5 (B) 2
(C) 1 (D) इनमें से कोई नहीं
20. सौरमण्डल की खोज किसने की?
(A) कॉपरनिकस (B) केप्लर
(C) आर्यभट्ट (D) न्यूटन
21. हरियाणा में लोक सभा के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?
(A) 5 (B) 10
(C) 12 (D) 15
22. निम्न में से कौन सी रचना प्रेम चन्द द्वारा लिखित नहीं है?
(A) गोदान (B) गबन
(C) मानसरोवर (D) इनमें से कोई नहीं
23. किस संस्कृत कवि को 'भारत का शैक्सपीयर' नाम से जाना जाता है?
(A) तुलसीदास (B) कालिदास
(C) कौटिल्य (D) शुद्रक
11. **Veto Power is given to how many countries.**
(A) 8 (B) 7
(C) 5 (D) 6
12. **Which is the currency of U.K. is?**
(A) Dollar (B) Pound
(C) Rupee (D) Yuro
13. **Percentage of female reservation at village level according to Panchayati Raj?**
(A) 33% (B) 66%
(C) 75% (D) 50%
14. **Teacher of Saint Kabir was?**
(A) Ramanuj (B) Ramanand
(C) Namdev (D) Ballabhacharya
15. **Old name of Mahabharata is-**
(A) Jai Bharat (B) Jai Sanhita
(C) Vijay Bharat (D) none of these
16. **Who is known as Haryana Kesari?**
(A) Pt. Neki Ram Sharma (B) Ch. Devilal
(C) Bhagwat Dayal Sharma (D) Ch. Bansi Lal
17. **G.T road was constructed in India by-**
(A) Ashok (B) Akbar
(C) Aurangzeb (D) Shershah Suri
18. **Devis cup related with-**
(A) Cricket (B) Lawn Tennis
(C) Hockey (D) Football
19. **How many medal India won in Comman Wealth game in boxing ?**
(A) 5 (B) 2
(C) 1 (D) None of these
20. **Who discovered Solar system-**
(A) Copernicus (B) Kepler
(C) Aaryabhata (D) Newton
21. **How many seats are reserved for Lok shabha in Haryana?**
(A) 5 (B) 10
(C) 12 (D) 15
22. **Which book is not written by Munshi Prem Chand ?**
(A) Godan (B) Gaban
(C) Manssarover (D) None of these
23. **Which Sanskrit poet called the 'Shakespeare of India' ?**
(A) Tulsidass (B) Kalidass
(C) Kotilya (D) shudrak

24. निम्न में से कौन सबसे अधिक समय के लिए प्रधानमंत्री रहे?

(A)



(B)



(C)



(D)



25. कौन सी इमारत दिल्ली में स्थित नहीं है?

(A)



(B)



(C)



(D)



24. Who Worked as the Prime minister of India for longest time ?

(A)



(B)



(C)



(D)



25. Which building is not situated in Delhi?

(A)



(B)



(C)



(D)



हिन्दी

26. हिन्दी वर्णमाला में कुल कितने स्पर्श व्यंजन हैं?

(A) 25

(B) 27

(C) 29

(D) 41

27. 'ङ्' का उच्चारण स्थान होता है-

(A) नासिक्य

(B) कंठोष्ठ्य

(C) मूर्धन्य

(D) कंठ तालव्य

28. हिन्दी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं?

(A) तीन

(B) सात

(C) चार

(D) पाँच

29. एकवचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द है :-

(A) सोना

(B) आँसू

(C) योद्धा

(D) इनमें से कोई नहीं

30. 'उसका कोट पुराना था।' इस वाक्य में 'पुराना' है :-

(A) संज्ञा

(B) सर्वनाम

(C) विशेषण

(D) अव्यय

31. 'अत्यन्त' का सन्धि-विच्छेद है-

(A) अति + आन्त

(B) अति + अन्त

(C) अत + अन्त

(D) अतः + अन्त

32. 'जो इस संसार से बाहर की वस्तु हो' के लिए वाक्यांश का एक शब्द होगा-

(A) अलौकिक

(B) महात्मा

(C) त्रिलोकी

(D) उपरोक्त सभी

33. 'आध्यात्मिक' का विलोम होता है?

(A) सांसारिक

(B) पारलौकिक

(C) भौतिक

(D) वैचारिक

34. 'आग में घी डालना' मुहावरे का अर्थ होगा-

(A) सर्दी भगाना

(B) आग बुझा देना

(C) क्रोध भड़काना

(D) घी खराब करना

35. इसमें से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है?

(A) मधुरता

(B) मनुष्य

(C) बुराई

(D) इनमें से कोई नहीं

36. निम्न में से अशुद्ध शब्द छांटे-

(A) आर्शीवाद

(B) प्रतिबन्धित

(C) हर्षोल्लास

(D) संबन्धित

37. सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है।

(A) सन्धि-विच्छेद

(B) समास विग्रह

(C) वचन

(D) उपसर्ग

38. 'फरमाबरदारी' में कौन-सा प्रत्यय है?

(A) ई

(B) फरमा

(C) दारी

(D) बरदारी

39. अच्छा बोलने वाला क्या कहलाता है?

(A) सुवक्ता

(B) वाग्मी

(C) उपरोक्त दोनों

(D) इनमें से कोई नहीं

40. दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है-

(A) पेड़ के नीचे बड़ी छाया है। (B) पेड़ के नीचे घनी छाया है।

(C) पेड़ के नीचे बहुत छाया है। (D) इनमें से कोई भी नहीं



ENGLISH

❖ In each question below a sentence broken into five or six parts. Join these parts to make a meaningful sentence. The correct order of parts is the answer.

41. 1. I / 2. immediately / 3. salary / 4. my / 5. want

- (A) 43152 (B) 15432
(C) 25143 (D) 42351

42. 1. do / 2. today / 3. you / 4. must / 5. it

- (A) 34152 (B) 25413
(C) 12543 (D) 51324

43. 1. left / 2. the / 3. house / 4. he / 5. suddenly

- (A) 12435 (B) 21354
(C) 45123 (D) 52341

❖ Fill in the blanks with correct form of Non-Finites in the following Questions.

44. She is too weak

- (A) to walk (B) walk
(C) walking (D) walked

45. Ram expected mehim.

- (A) help (B) helping
(C) helped (D) to help

❖ In each of the following questions, choose the correctly spelt word.

46. (A) Satelite (B) Sattelite

(C) Satellite (D) Sattellite

47. (A) Comitte (B) Commitee

(C) Committee (D) Comiittee

❖ Fill in the blanks in the following sentences with suitable Articles.

48. I bought.....Knife from the market.

- (A) a (B) an
(C) the (D) None of these

49.Street Post Man has not yet arrived.

- (A) a (B) the
(C) an (D) None of these

❖ Fill in the blanks with appropriate Modals.

50. The Student said that he.....definitely top the class.

(A) will (B) would

(C) can (D) Could

51. My wife..... often tell the truth.

(A) will (B) would

(C) can (D) Could

❖ Choose the right Option of indirect speech from the given sentences.

52. The Teacher said, " The Ganga rises from the Himalayas".

(A) The Teacher said that the Ganga rises from the Himalayas.

(B) The Teacher told that the Ganga rises from the Himalayas

(C) The Teacher said if the Ganga rises from the Himalayas.

(D) The Teacher said the Ganga rose from the Himalayas.

53. He said to me, " Help the poor".

(A) He asked me to helped the poor.

(B) He asked me to help the poor.

(C) He told me to help the poor.

(D) He asked me that help the poor.

❖ Fill in the blanks with suitable determiners :

54. I need.....day's rest.

(A) few (B) a few

(C) little (D) a little

55. I wantsugar for tea.

(A) few (B) a few

(C) little (D) a little

SCIENCE

56. पौधे की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्ण कहलाता है-

(A) एंजाइम (B) उत्तक

(C) क्लोरोफिल (D) सूचक

57. कौन-सा अंग मानव पाचन तंत्र का भाग नहीं है?

(A) उदर (B) ग्रासिका

(C) वृक्क (D) मुख-गुहिका

56. Name of green pigment of leaves is -

(A) Enzyme (B) Tissue

(C) Chlorophyl (D) Index

57. Which organ is not a part of Human digestive system.

(A) Stomach (B) Food pipe

(C) Kidney (D) Mouth cavity

58. दस्त के कारण निर्जलीकरण से बचने के लिए लेना चाहिए-
 (A) ठण्डा पेय (B) ORS
 (C) टीका (D) चाय
59. शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है-
 (A) पित्ताशय (B) अग्नाशय
 (C) यकृत (D) लाल-ग्रंथि
60. मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है?
 (A) 0 डिग्री सेल्सियस (B) 25 डिग्री सेल्सियस
 (C) 37 डिग्री सेल्सियस (D) 42 डिग्री सेल्सियस
61. चींटी के डंक में कौन-सा अम्ल पाया जाता है?
 (A) ऐसीटिक (B) फॉर्मिक
 (C) लैक्टिक (D) ऐस्कॉर्बिक
62. यूरिया में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है?
 (A) N (B) K
 (C) P (D) उपरोक्त सभी
63. ऋतु के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं?
 (A) 4 (B) 3
 (C) 2 (D) 1
64. सामान्य स्थिति में मनुष्य की श्वास दर होती है-
 (A) 10 से 12 प्रति मिनट (B) 15 से 18 प्रति मिनट
 (C) 20 से 23 प्रति मिनट (D) 33 से 36 प्रति मिनट
65. औसतन समुद्र के पानी में कितनी लवणता होती है-
 (A) 3% (B) 3.5%
 (C) 2.5% (D) 2%
66. सोडा पानी होता है-
 (A) कार्बोनिक एसिड (B) सल्फ्यूरिक एसिड
 (C) कार्बन डाइऑक्साइड (D) नाइट्रस एसिड
67. हँसाने वाली गैस कौन सी है?
 (A) नाइट्रस ऑक्साइड (B) कार्बन मोनोऑक्साइड
 (C) सल्फर डाइऑक्साइड (D) हाइड्रोजन पेरॉक्साइड
68. त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है?
 (A) एंजाइम्स (B) हार्मोन्स
 (C) एपिडर्मिस (D) मेलानिन
69. सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है?
 (A) सोयाबीन में (B) मूंगफली में
 (C) मटर में (D) चावल में
70. मृदा अपरदन का मुख्य कारण है?
 (A) अतिचारण (B) वनोन्मूलन
 (C) भू-स्खलन (D) उपरोक्त सभी
58. What should be taken to avoid dehydration in loose motion?
 (A) Cold drink (B) ORS
 (C) Vaccination (D) Tea
59. Largest gland of human body is-
 (A) Gall bladder (B) Pancreas
 (C) Liver (D) Red gland
60. Normal temperature of human body is-
 (A) 0° C (B) 25° C
 (C) 37° C (D) 42° C
61. Acid Contained in ant's sting is -
 (A) Acetic (B) Formic
 (C) Lactic (D) Ascorbic
62. Nutrient Found in Urea is-
 (A) N (B) K
 (C) P (D) All the above
63. Kinds of Crops according to seasons-
 (A) 4 (B) 3
 (C) 2 (D) 1
64. Breathing rate of human in normal state is-
 (A) 10-12 per minute (B) 15-18 per minute
 (C) 20-23 per minute (D) 33-36 per minute
65. The average salinity of sea water is-
 (A) 3% (B) 3.5%
 (C) 2.5% (D) 2%
66. Soda water contains-
 (A) carbonic acid (B) sulphuric acid
 (C) carbon dioxide (D) nitrous acid
67. What is laughing gas?
 (A) Nitrous Oxide (B) Carbon monoxide
 (C) Sulphur dioxide (D) Hydrogen peroxide
68. Which element determines skin colour?
 (A) Enzyme (B) Harmones
 (C) Epidermic (D) Melahmine
69. What is most rich in protein?
 (A) Soyabean (B) Groundnut
 (C) Pea (D) Rice
70. Major cause of soil erosion is -
 (A) Over grazing (B) Deforestation
 (C) Landslide (D) All of the above

COMPUTER

71. कम्प्यूटर की तीसरी पीढ़ी है-
 (A) 1958-1975 (B) 1966-1978
 (C) 1956-1971 (D) 1955-1971
72. प्रिंटर कौन-सा डिवाइस है?
 (A) आउटपुट डिवाइस (B) इनपुट डिवाइस
 (C) उपरोक्त दोनों (D) इनमें से कोई नहीं
73. एक गीगा बाइट (GB) में होते हैं-
 (A) 1024 GB (B) 1024 TB
 (C) 1024 KB (D) 1024 MB
74. माइक्रोसाफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन है-
 (A) * DOC. (B) * PPF.
 (C) * NLS. (D) * R+F
75. कौन सी हार्डवेयर की आइटम नहीं है?
 (A) MP3 फाइल (B) माऊस
 (C) की बोर्ड (D) मॉनीटर
71. Which is third Generation of computer ?
 (A) 1958-1975 (B) 1966-1978
 (C) 1956-1971 (D) 1955-1971
72. Which type of device is Printer ?
 (A) Output Device (B) Input Device
 (C) Both a and b (D) None of these
73. One Giga byte contains-
 (A) 1024 GB (B) 1024 TB
 (C) 1024 KB (D) 1024 MB
74. Extension of microsoft word-
 (A) * DOC. (B) * PPF.
 (C) * NLS. (D) * R+F
75. Which is not items of hardware-
 (A) MP-3 file (B) Mouse
 (C) Key board (D) Monitor

MENTAL ABILITY

76. वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 19वें स्थान पर है तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं?
 (A) 36 (B) 37
 (C) 38 (D) 39
77. यदि '+' का अर्थ 'x', 'x' का अर्थ '÷' हो तो $15 \times 3 + 6 \div 4$ का मान क्या होगा?
 (A) 34 (B) 36
 (C) 38 (D) 40
78. चार अंको की बड़ी से बड़ी संख्या एवं तीन अंको की छोटी संख्या का अन्तर कितना होगा?
 (A) 9899 (B) 8888
 (C) 8988 (D) 8999
79. कागज बनने की प्रक्रिया का सही क्रम होगा-
 1. लकड़ी 2. किताब 3. कारखाना 4. कागज
 (A) 1, 3, 4, 2 (B) 2, 1, 3, 4
 (C) 3, 1, 4, 2 (D) 4, 2, 3, 1
80. यदि 1 जनवरी 2014 को बुधवार था, तो 31 दिसम्बर 2014 को कौन-सा दिन होगा?
 (A) सोमवार (B) मंगलवार
 (C) बुधवार (D) शनिवार
76. In a row of trees one tree is at 19th position from both ends how many trees are there in the row?
 (A) 36 (B) 37
 (C) 38 (D) 39
77. Of + mean 'x', 'x' means '÷', then what is result of $15 \times 3 + 6 \div 4$
 (A) 34 (B) 36
 (C) 38 (D) 40
78. What is the difference between largest number of four digits and smallest No. of three digits ?
 (A) 9899 (B) 8888
 (C) 8988 (D) 8999
79. Correct order of paper making process is -
 1. Wood 2. Books 3. Factory 4. Paper
 (A) 1, 3, 4, 2 (B) 2, 1, 3, 4
 (C) 3, 1, 4, 2 (D) 4, 2, 3, 1
80. If it was Wednesday on 1ST Jan 2014 then what day will be on 31 Dec. 2014 ?
 (A) Monday (B) Tuesday
 (C) Wednesday (D) Saturday

❖ निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में चार प्रश्न आकृतियां तथा चार उत्तर आकृतियां दी गई हैं। चारों प्रश्न आकृतियां एक निश्चित श्रृंखला बनाती हैं। उत्तर आकृतियों में से ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो इस श्रृंखला को जारी रखती हो।

81. प्रश्न आकृति : उत्तर आकृतियां

82. प्रश्न आकृति : उत्तर आकृतियां

83. प्रश्न आकृति : उत्तर आकृतियां

84. प्रश्न आकृति : उत्तर आकृतियां

85. प्रश्न आकृति : उत्तर आकृतियां

❖ In each question four question figures and four answer figures are given, All question figures make a series. Choose the correct option from answer figures.

81. Question Figure : Answer Figure

82. Question Figure : Answer Figure

83. Question Figure : Answer Figure

84. Question Figure : Answer Figure

85. Question Figure : Answer Figure

MATHS

86. एक किलो मीटर में कितने सेटीमीटर होते हैं?
 (A) 1000 से० मी० (B) 100 से०मी०
 (C) 10 से० मी० (D) 100000 से० मी०
87. सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन-सी है?
 (A) -1 (B) 0
 (C) 1 (D) संभव नहीं है
88. दो विषम संख्याओं का योग सदैव होता है-
 (A) अभाज्य (B) सम संख्या
 (C) विषम संख्या (D) 0.
89. एक ऋजुकोण का माप क्या है?
 (A) 90 डिग्री (B) 180 डिग्री
 (C) 360 डिग्री (D) 0 डिग्री
90. दीपक ने 3.5 कि०ग्रा० और अनवर ने 2.5 कि०ग्रा० चीनी खरीदी। तो बताओ दोनों ने कितनी चीनी खरीदी?
 (A) 7 कि०ग्रा० (B) 5 कि०ग्रा०
 (C) 6 कि०ग्रा० (D) 8 कि०ग्रा०

86. One kilometer is equal tocentimeter
 (A) 1000 cms. (B) 100cms.
 (C) 10 cms. (D) 100000 cms.
87. Biggest natural number is-
 (A) -1 (B) 0
 (C) 1 (D) Not possible
88. Sum of two odd numbers is always-
 (A) Irrational (B) Even
 (C) Odd (D) 0-Zero
89. Angle of Circle measures is always-
 (A) 90° (B) 180°
 (C) 360° (D) 0°
90. Deepak bought 3.5 kg Sugar and Anvar bought 2.5 kg sugar. How much sugar both of them bought?
 (A) 7 kg. (B) 5 kg.
 (C) 6 kg. (D) 8 kg.

91. कौन-सी संख्या 9 से पूर्ण विभाजित होती है।
(A) 2512 (B) 3212
(C) उपरोक्त दोनों (D) इनमें से कोई नहीं
92. क्या 90 एक पूर्ण वर्ग है?
(A) हाँ (B) हो सकती है
(C) नहीं (D) कह नहीं सकते
93. एक संख्या को स्वयं से तीन बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है?
(A) वर्ग संख्या (B) घन संख्या
(C) उपरोक्त दोनों (D) इनमें से कोई नहीं
94. एक व्यक्ति 12 दिनों में 2580 रुपये कमाता है, तो 18 दिनों कितने रुपये कमायेगा ?
(A) 3600 (B) 3870
(C) 3840 (D) इनमें से कोई नहीं
95. एक दुकानदार ने 200 बल्ब 10 रु प्रति बल्ब की दर से खरीदे, उनमें से 5 बल्ब खराब थे उन्हें फेंकना पड़ा। शेष बल्बों को 12 रु प्रति बल्ब की दर से बेचा गया। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई?
(A) 10 प्रतिशत (B) 12 प्रतिशत
(C) 15 प्रतिशत (D) 17 प्रतिशत
96. एक व्यक्ति 5 मिनट में एक 600 मीटर लंबी सड़क पार करता है उसकी प्रति घंटे की दर से चाल क्या होगी?
(A) 3.6 (B) 7.2
(C) 8.4 (D) 10
97. एक किसान ने 9 घंटों में 61 किमी. दूरी तय की, वह 4 कि०मी प्रति घंटा पैदल और 9 कि०मी० प्रति घंटा साईकिल से गया। पैदल चलने वाली दूरी थी।
(A) 14 कि०मी० (B) 15 कि०मी०
(C) 16 कि०मी० (D) 17 कि०मी०
98. ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, जो 43, 91 और 183 को उससे भागे करने पर हर स्थिति में बराबर शेष दिखाए।
(A) 4 (B) 7
(C) 9 (D) 13
99. 24, 36 और 40 का सबसे छोटा सर्वगुणज है-
(A) 120 (B) 240
(C) 360 (D) 480
100. एक विक्रेता ने एक रुपये की 6 टॉफी खरीदी। उसे 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचनी होंगी ?
(A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6
91. Which number is completely divisible by 9 ?
(A) 2512 (B) 3212
(C) Both a & b (D) None of these
92. Is 90 a perfect square?
(A) Yes (B) May be
(C) No (D) Not Possible
93. A number multiplied three times by itself is called.
(A) Square (B) Cube
(C) Both a & b (D) None of these
94. A man earns ₹ 2580 in 12 days. How many rupees he will he earn in 18 days.
(A) 3600 (B) 3870
(C) 3840 (D) None of these
95. A shopkeeper purchased 200 bulb at the rate of ₹ 10 per bulb 5 bulbs were broken. Remaining bulbs were sold at ₹ 12 each. Find percent loss or percent profit of man ?
(A) 10 % (B) 12 %
(C) 15% (D) 17 %
96. A person crosses a 600 m long street in 5 minutes. What is his speed in km per hour?
(A) 3.6 (B) 7.2
(C) 8.4 (D) 10
97. A farmer travelled a distance of 61 km in 9 hours. He travelled partly on foot 4 km/hr and partly on bicycle 9 km/hr. The distance travelled on foot is:
(A) 14 km (B) 15 km
(C) 16 km (D) 17 km
98. Find the greatest number that will divide 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder in each case.
(A) 4 (B) 7
(C) 9 (D) 13
99. Find the lowest common multiple of 24, 36 and 40.
(A) 120 (B) 240
(C) 360 (D) 480
100. A vendor bought 6 toffees for a rupee. How many for 1 rupee must he sell to gain 20% ?
(A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6

Rough Work / रफ कार्य

Blank area for rough work.



Haryana Biggest Talent Search Exam

MANNER IN WHICH ANSWERS ARE TO BE GIVEN / उत्तर देने की विधि

निर्देश : प्रत्येक प्रश्न अथवा प्रत्येक अधूरे कथन के बाद चार उत्तर अथवा पूरक कथन-सुझाए गए हैं। प्रत्येक दशा में आपको किसी एक को चुनना है जो प्रश्न का सही उत्तर दे अथवा कथन को पूरा करे और आपको उत्तर-पत्रिका में उपयुक्त अण्डाकार खाने A, B, C, या D को काले/नीले बॉल-पॉइंट पेन से काला/नीला () करना अनिवार्य है।

उदाहरण :

प्रश्न सं. '1' निम्न में से कौन-सी वस्तु लकड़ी से नहीं बनती है?

(A) मेज (B) बैट (C) बैल्ट (D) दरवाजा

स्पष्टीकरण : उपरोक्त उदाहरण में चार विकल्पों में से सही विकल्प बैल्ट है।

इसलिए प्रश्न सं. '1' का सही उत्तर 'C' विकल्प होगा। जिसे उत्तर पुस्तिका में दिये गए कॉलम 'C' के अण्डाकार खाने को काले/नीले बॉल पॉइंट पेन से काला/नीला करके उत्तर नीचे बताई गई विधि के अनुसार दिया जाना है।

उदाहरण :

प्रश्न सं. '1' निम्न में से कौन-सी वस्तु लकड़ी से नहीं बनती है?

(A) (B) (C) (D)

प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही सही उत्तर है। आपको समुचित कॉलम अर्थात् A, B, C या D के अण्डाकार खाने को काला/नीला () करना है। यदि आप किसी प्रश्न के सामने एक से अधिक अण्डाकार खाने को भरेंगे () तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। यदि आप किसी उत्तर को रद्द करना चाहते हैं तो आप उत्तर-पत्रिका के उस अण्डाकार खाने से काले/नीले निशान को पूरी तरह से मिटा दें और तब बदले हुए उत्तर के लिए अण्डाकार खाने को काला/नीला कर दें।

1. इस प्रश्न-पुस्तिका के अन्दर आपको उत्तर अंकित नहीं करने हैं। सभी उत्तर केवल OMR Sheet/ उत्तर पत्रिका में ही दें।
2. प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आप इस पुस्तिका की जाँच करके देख लें कि इसमें पूरे पृष्ठ हैं तथा कोई पृष्ठ कम या दोबारा तो नहीं आ गया है। यदि आप इस पुस्तिका में कोई त्रुटि पाएँ, तो तत्काल इसके बदले दूसरी पुस्तिका ले लें।
3. किसी भी रोजगार परक या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह ही एन.बी.टी. एस.ई./एच.बी.टी.एस.ई. परीक्षा में भी परीक्षा केन्द्रों में मोबाईल फोन तथा बेतार संचार साधन पूरी तरह निषिद्ध हैं। उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि मोबाईल फोन या किसी अन्य बेतार साधन को स्विच ऑफ करके भी अपने पास न रखें। इस प्रावधान का अनुपालन न करने पर परीक्षा में अनुचित उपायों का प्रयोग माना जाएगा और उनके विरुद्ध कारवाई की जाएगी, उनकी उपस्थिति रद्द कर देने सहित।"

Directions : Each question or incomplete statement is followed by four alternative suggested answers or compleions. In each case, you are required to select the one that correctly answers the questions or completes the statement and blacken [] appropriate oval A,B,C or D by **Black/Blue Ball-point pen** against the question concerned in the Answer-Sheet.

Example :

Question No. '1'- Which one is not formed by wood ?

(A) Table (B) Bat (C) Belt (D) Door

Explanation : In the above example, the correct answer is 'Belt' and this answer has been suggested at 'C'. Accordingly, the answer is to be indicated by blackening the oval by Black/Blue Ball-point Pen in column 'C' against Question No. (1) in the manner indicated below :

Question No. '1'- Which one is not formed by wood ?

(A) (B) (C) (D)

There is only one correct answer to each question. You should blacken () the oval of the appropriate column, viz., A, B, C or D. If you blacken () more than one oval against any one question, the answer will be reated as wrong. If you wish to cancel any answer, you should completely erase that black mark in the oval in the OMR-Sheet, and then blacken the oval of revised response.

1. You are NOT required to mark your answers in this Booklet. All answers must be indicated in the OMR-Sheet only.
2. Before you start to answer the questions you must check up this booklet and ensure that it contains all the pages and see that no page is missing or repeated. If you find any defect in this booklet, you must get it replaced immediately.
3. "Mobile phones and wireless communication devices are completely banned in the examination halls/rooms. Candidates are advised not to keep mobile phones/any other wireless communication devices to keep mobile phones/any other wireless communication devices which them even switching it off, in their own interest. Falling to comply with this provision will be considered as using unfair means in the examination and action will be taken against them including cancellation of their candidature."

DO NOT OPEN THE SEAL OF THE BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO.



R A A H 0123456781121

